

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्विद्यालय के परिसर में पृथ्वी एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पृथ्वी दिवस का आयोजन

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्विद्यालय के परिसर में पृथ्वी एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आज पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला अधिकार कार्यकर्ता व नगर निगम धर्मशाला की नव निर्वाचित अध्यक्ष सुश्री रजनी देवी ने मुख्याथिति के रूप में शिरकत की। देवी सरस्वती की स्तुति के साथ समारोह का आरम्भ हुआ। स्कूल के डीन डॉ. दीपक पंत ने समारोह के अवसर पर हरित प्रद्योगिकी के विकास पर बल दिया और अनेक प्रकार की हरित तकनीकों जैसे प्लास्टिक प्रबंधन के लिए नोबल प्रोडक्ट सेलेक्टिव डीप्रेडेशन रिएक्टर, कॉम्पैक्ट डिस्क से मूल्य वर्धित उत्पाद, लिथियम बैटरी से गोल्ड इत्यादि हरित तकनीकों की जानकारी दी। इस उपलक्ष पर डॉ. दीपक पंत ने विभाग के विभिन्न सामाजिक प्रयासों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा की विभाग विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की प्रद्योगिकी की जानकारी को समाज में प्रेषित करना चाहता है और इसके हेतु नगर निगम का सहयोग अति आवश्यक है। समारोह की सम्माननीय अतिथि धर्मशाला नगर निगम की अध्यक्ष सुश्री रजनी देवी ने धर्मशाला समार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सफल बनाने हेतु विभाग के सदस्यों को आगे आने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने नए विचारों को प्राथमिकता देने का वचन दिया। इस अवसर पर नीनू शर्मा वार्ड नंबर ४ की पार्षद भी उपस्थित थी। इस उपलक्ष्य पर विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम भी करवाया गया। कार्यक्रम में विभाग के सदस्यों डॉ. ए.के. महाजन, डॉ. मुश्ताक अहमद (कन्वेनर) डॉ. अनुराग लिंगा(को-कन्वेनर), डॉ. अंकित टंडन, डॉ. शुभांकर चटर्जी के अलावा विभिन्न विभाग अध्यक्ष व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। शोधार्थी वरुण धीमान, अन्विता शील इत्यादि ने समारोह के निष्पादन में अपना योगदान दिया।




Green research in our lab

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हरित प्रौद्योगिकी

Novel Product Selective Degradation Reactor

प्लास्टिक अपशिष्ट चुनिंदा पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस जैसे ईंधन में तब्दील हो सकता है

IPR/FA/10007, by Dr D Pant.



Mode: User

